



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

9 श्रावण, 1941 (श०)

संख्या- 605 राँची, बुधवार,

31 जुलाई, 2019 (ई०)

---

#### उद्योग विभाग

-----

अधिसूचना

7 मार्च, 2019

**विषय:** झारखण्ड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति-2016 में विभागीय ज्ञापांक 1335 दिनांक 16.05.2018 के द्वारा किए गए संशोधन को स्पष्ट किए जाने हेतु पुर्नसंशोधन करने के संबंध में।

संख्या-512-06/उ०नि०(विविधि) औ०नि०-03/2015-- झारखण्ड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति-2016 विभागीय पत्रांक 321, दिनांक 16.02.2016 के द्वारा अधिसूचित किया जा चुका है। Goods and Service Tax(GST) लागू होने के उपरान्त उक्त प्रवृत्त नीति में छैज् के अनुरूप कतिपय संशोधन किया गया, जिसे विभागीय ज्ञापांक 1335 दिनांक 16.05.2018 के द्वारा अधिसूचित किया गया है। झारखण्ड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति-2016 में जी०एस०टी० के अनुरूप किये गये संशोधन के आलोक में विषयगत नीति के कार्यान्वयन हेतु उक्त संशोधन को स्पष्ट किये जाने की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में झारखण्ड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति-2016 में निम्नवत् पुर्नसंशोधन किया जाता है:-

1. झारखण्ड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति-2016 में कंडिका-7.5 में उपकंडिका 1/4aa1/2 Incentive on GST सम्मिलित किया गया है, जिसकी कंडिका- (i)(ii) (iii) (iv) में "State GST Paid on intra State sale subject to the tax realization in the state government treasury" समान रूप से अंकित है। उक्त पंक्ति में sale के स्थान पर supply प्रतिस्थापित किया जाता है।
2. झारखण्ड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति-2016 में कंडिका-7.5 में उपकंडिका 1/4aa1/2(v) निम्नवत् सम्मिलित किया जाता है:-

(aa)(v) **Explanation:-** Actual realization in the state treasury means the goods supplied by the industrial unit and finally consumed within the state and SGST paid thereof realized in the state treasury .If any ITC is claimed on the goods supplied by the unit or by any subsequent taxable person in any manner whatsoever e.g. ITC on inter-State supply, then SGST paid on such goods shall not be eligible for reimbursement.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

के० रवि कुमार,  
सरकार के सचिव

-----